

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
 PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
 GEOGRAPHICAL INDICATIONS

भारत सरकार
 GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
 THE PATENT OFFICE
पेटेंट प्रमाणपत्र
 PATENT CERTIFICATE
 (Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 011133655
 SL No :

पेटेंट सं. / Patent No. : 364891
 आवेदन सं. / Application No. : 1568/DEL/2013
 फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 24/05/2013
 पेटेन्टी / Patentee : 1.UNION OF INDIA THROUGH SECRETARY DBT
 2.UNIVERSITY OF DELHI THROUGH REGISTRAR

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेन्टी को उपरोक्त आवेदन में ब्यपारकटित A NOVEL BEACON-BASED DIAGNOSTIC PROBE/TOOL/KIT FOR DETECTION OF TRANSLOCATION 8;21 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS AND METHOD OF WORKING FOR THE SAME नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 24th day of May 2013 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदान किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A NOVEL BEACON-BASED DIAGNOSTIC PROBE/TOOL/KIT FOR DETECTION OF TRANSLOCATION 8;21 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS AND METHOD OF WORKING FOR THE SAME as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 24th day of May 2013 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
 PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
 GEOGRAPHICAL INDICATIONS

अनुदान की तारीख : 19/04/2021
 Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
 Controller of Patent

ध्यान दें - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 24th day of May 2015 को और उसके समस्त क्रमिक वर्ष में जारी दिन देना होगा।
 Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 24th day of May 2015 and on the same day in every year thereafter.

PATENT TITLE :

A NOVEL BEACON-BASED DIAGNOSTIC PROBE/TOOL/KIT FOR DETECTION OF TRANSLOCATION 8;21 IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS AND METHOD OF WORKING FOR THE SAME

A novel effective rapid pocket friendly technique to detect AML with the help of Molecular beacon and easy visualization of results with a help of in house developed dark reader By Rashi Arora and Dr Sunita Jetly as a part of their research at Dr B. R. Ambedkar Center under the aegis of Prof Daman Saluja



Dr Sunita Jetly

Department Of Biomedical Sciences , Acharya Narendra Dev College